



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1988]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2009/अग्रहायण 9, 1931

No. 1988]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2009/AGRAHAYANA 9, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3051(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1635(अ), तारीख 6 जुलाई, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के 116.500 कि.मी. से 136.500 कि.मी. (तन्जावुर-तिरुचिरापल्ली सेक्शन) तक के भू-खण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 11 अगस्त, 2009 को “डेली थांथी” और “दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के कि. मी 116/500 से 136/500 कि. मी (तन्जावुर-तिरुचिरापल्ली सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	(1) पप्पाकुरीची	231/9	निजी	मनाई	17.5	ई मोहम्मद युसुफ शरीफु
				231/28	निजी	मनाई	111	ई आईडी पारी कम्पनी
				236/1ए1	निजी	शुष्क	226.5	1. रंगानाथ कोनार और अन्य 2. वालजी नानसी पटेल पुत्र नानजी पानजी पटेल 3. नान्जी पांजी पटेल पुत्र पांजी बीमजी पटेल 4. मनोहरलाल एन पटेल पुत्र नानजी पांजी पटेल 5. पुरुषोत्तम पटेल पुत्र देवजी मांजी पटेल 6. गोपाल पटेल पुत्र शामजी पटेल 7. टी गोविन्दा वेनजी पटेल पुत्र शारजी अर्जुन पटेल
				267/1	निजी	मनाई	415	पी गोपलन ईयर
				267/2ए	निजी	मनाई	59	पी गोपलन ईयर
				267/2बी	निजी	मनाई	57	एम राजालिंगम
				267/3ए	निजी	मनाई	2	एम राजालिंगम
				267/3बी	निजी	मनाई	41	आर करुप्पीई
				267/4ए	निजी	मनाई	2	आर करुप्पीई
				267/4बी	निजी	मनाई	40	जी संजीवी रेडडी
				267/5ए	निजी	मनाई	1	जी संजीवी रेडडी
				267/5बी	निजी	मनाई	52	टी शारगुरु
				267/6ए	निजी	मनाई	1	टी शारगुरु
				267/6बी	निजी	मनाई	56	श्री सरस्वती अम्माल
				267/7ए	निजी	मनाई	0.5	श्री सरस्वती अम्माल
				267/7बी	निजी	मनाई	7	एस पलानियन्दी पिल्ले
				267/8ए	निजी	मनाई	0.5	एस पलानियन्दी पिल्ले
				267/8बी	निजी	मनाई	6	एन वेंकीदासामी
				267/10ए	निजी	मनाई	0.5	एस पलानियन्दी पिल्ले
				267/10सी	निजी	मनाई	11.5	आर मोकीया थेवर
			(2) थुवाकुडी	433/1	सरकारी	पोरमबोके	71	तमिलनाडु सरकार
				433/3	सरकारी	पोरमबोके	130	तमिलनाडु सरकार
				434	सरकारी	पोरमबोके	534	तमिलनाडु सरकार
				489/2	सरकारी	पोरमबोके	4	तमिलनाडु सरकार
				489/3	सरकारी	पोरमबोके	1076	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				579	निजी	शुष्क	7197	भारत हेवी ईलक्ट्रीकल लि
				580	निजी	शुष्क	710	भारत हेवी ईलक्ट्रीकल लि
				605	सरकारी	पोरमबोके	1181	तमिलनाडु सरकार
				606	सरकारी	पोरमबोके	35	तमिलनाडु सरकार
				638	निजी	शुष्क	810	भारत हेवी ईलक्ट्रीकल लि
				639	निजी	शुष्क	4934	भारत हेवी ईलक्ट्रीकल लि
				651/1	निजी	शुष्क	22	भारत हेवी ईलक्ट्रीकल लि
				651/2	सरकारी	पोरमबोके	551	तमिलनाडु सरकार
				652/1	सरकारी	पोरमबोके	18	तमिलनाडु सरकार
				652/2	सरकारी	पोरमबोके	425	तमिलनाडु सरकार
				487	सरकारी	पोरमबोके	171	तमिलनाडु सरकार
				488	सरकारी	पोरमबोके	75	तमिलनाडु सरकार
				489/1	सरकारी	पोरमबोके	7	तमिलनाडु सरकार
				489/2	सरकारी	पोरमबोके	57	तमिलनाडु सरकार
				493	सरकारी	पोरमबोके	3532	तमिलनाडु सरकार
				497	सरकारी	पोरमबोके	7184	तमिलनाडु सरकार
				616	सरकारी	पोरमबोके	988	तमिलनाडु सरकार
			(3) ईल्लाकुडी	20/2	निजी	नम	636	1. मुथु करुप्पा चेट्टीयार पुत्र मुथाप्पा चेट्टीयार 2. जैरी मनी अची पत्नी मुथुकरुप्पा चेट्टीयार
			(4) कुट्टापपर	360	निजी	शुष्क	2578	भारत हेवी ईलक्ट्रीकल लि
				362	सरकारी	पोरमबोके	746	तमिलनाडु सरकार
				363	सरकारी	पोरमबोके	2748	तमिलनाडु सरकार

[फा. सं. भारासप्रा/11014/पीआईयू-तांज/एलए/2009]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3051(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1635(E), dated the 6th July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 67 on the stretch of land from Km 116/500 to Km 136/500 (Thanjavur - Tiruchirappalli Section) in Tiruchirappalli District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Thanthi", and "The New Indian Express", both dated the 11th August, 2009; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the lands to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 116/500 to Km 136/500 (Thanjavur – Tiruchirappalli Section) on the National Highways No.67 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the District	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owner / interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tiruchirappalli	Tiruchirappalli	(1).Pappakurichi	231/9	Private	Manai	17.5	E.Mohamed Yousuf Shariff
				231/28	Private	Manai	111	E.ID.Parry Company
				236/1A1	Private	Dry	226.5	1.Renganatha Konar & others 2.Valji Nansi Patel S/o Nanji Panji Patel 3.Nanji Panji Patel S/o.Panji Beemji Patel 4.Moharlal N.Patel S/o.Nanji Panji Patel 5.Purushotham Patel S/o.Devji Manji Patel 6.Gopal Patel S/o.Shamji Patel 7.T.Govinda Vinji Patel S/o.Shariff Arjun Patel
				267/1	Private	Manai	415	P.Gopalan Iyer
				267/2A	Private	Manai	59	P.Gopalan Iyer
				267/2B	Private	Manai	57	M.Rajalingam
				267/3A	Private	Manai	2	M.Rajalingam
				267/3B	Private	Manai	41	R.Karuppavee
				267/4A	Private	Manai	2	R.Karuppavee
				267/4B	Private	Manai	40	G.Sanjeevi Reddy
				267/5A	Private	Manai	1	G.Sanjeevi Reddy
				267/5B	Private	Manai	52	T.Sarguru
				267/6A	Private	Manai	1	T.Sarguru
				267/6B	Private	Manai	56	Sri Saraswathi Ammal
				267/7A	Private	Manai	0.5	Sri Saraswathi Ammal
				267/7B	Private	Manai	7	S.Palaniyandi pillai
				267/8A	Private	Manai	0.5	S.Palaniyandi Pillai
				267/8B	Private	Manai	6	N.Venkidasamy
				267/10A	Private	Manai	0.5	S.Palaniyandi Pillai
				267/10C	Private	Manai	11.5	R.Mookaiya Thevar
			(2).Thuvakudi	433/1	Government	Poramboke	71	Government of Tamil Nadu
				433/5	Government	Poramboke	130	Government of Tamil Nadu
				434	Government	Poramboke	534	Government of Tamil Nadu
				489/2	Government	Poramboke	4	Government of Tamil Nadu
				489/3	Government	Poramboke	1076	Government of Tamil Nadu
				579	Private	Dry	7197	Bharat Heavy Electrical Ltd.,
				580	Private	Dry	710	Bharat Heavy Electrical Ltd.,
				605	Government	Poramboke	1181	Government of Tamil Nadu
				606	Government	Poramboke	35	Government of Tamil Nadu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				638	Private	Dry	810	Bharat Heavy Electrical Ltd.,
				639	Private	Dry	4934	Bharat Heavy Electrical Ltd.,
				651/1	Private	Dry	22	Bharat Heavy Electrical Ltd.,
				651/2	Government	Poramboke	551	Government of Tamil Nadu
				652/1	Government	Poramboke	18	Government of Tamil Nadu
				652/2	Government	Poramboke	425	Government of Tamil Nadu
				487	Government	Poramboke	171	Government of Tamil Nadu
				488	Government	Poramboke	75	Government of Tamil Nadu
				489/1	Government	Poramboke	7	Government of Tamil Nadu
				489/2	Government	Poramboke	57	Government of Tamil Nadu
				493	Government	Poramboke	3532	Government of Tamil Nadu
				497	Government	Poramboke	7184	Government of Tamil Nadu
				616	Government	Poramboke	988	Government of Tamil Nadu
			(3).Ellakudi	20/2	Private	Wet	.636	1.Muthu Karuppa Chettiar S/o.Muthappa Chettiar 2.Vairamani Achi W/o Muthukaruppa Chettiar
			(4).Kuttappar	360	Private	Dry	2578	Bharat Heavy Electrical Ltd.,
				362	Government	Poramboke	746	Government of Tamil Nadu
				363	Government	Poramboke	2748	Government of Tamil Nadu

[F. No. NHAI/11014/PIU-Thanj/LA/2009]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

4355 95/09-2